



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23]

No. 23]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 15, 2008/पौष 25, 1929

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 15, 2008/PAUSA 25, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जाँच समाप्ति की अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2008

विषय : चीन जन. गण. के मूल के/अथवा वहाँ से निर्यातित नायलॉन टायर कॉर्ड फैब्रिक (एनटीसीएफ) के आयातों पर लागू पाटनरोधी की न्यू शिपर समीक्षा (नियम 22 के अंतर्गत) की समाप्ति।

सं. 15/24/2006-डीजीएडी.— वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियम, 1995 (जिन्हें एतदपश्चात् पाटनरोधी नियम कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

2. यतः, मै. क्विंगडो लियन च्वांग स्टॉक कं. लि. चीन जन. गण. (जिसे एतदपश्चात् आवेदक कहा गया है) ने पाटनरोधी जाँच, जिसमें सरकार ने दिनांक 27-4-2005 की अधिसूचना सं. 36/2005 के जरिए सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 69 के अंतर्गत आने वाले पाटनरोधी शुल्क को अधिसूचित किया था, के मामले में चीन जन. गण. से नायलॉन टायर कॉर्ड फैब्रिक (एनटीसीएफ) के निर्यातों पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सिफारिश किए गए पाटनरोधी शुल्क की पाटनरोधी नियम 22 के तहत समीक्षा का अनुरोध करते हुए वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियम, 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया था।

3. यतः, प्राधिकारी ने दिनांक 30-10-2007 की अधिसूचना सं. 15/24/2006-डीजीएडी के जरिए व्यक्तिगत पाटन मार्जिन के

निर्धारणार्थ पाटनरोधी नियम 22 के अंतर्गत जाँच की शुरुआत की थी।

4. यतः, प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमों के नियम 22 के अनुसार और अधिसूचना सं. 36/2005-सीमाशुल्क, दिनांक 27-4-2005 को ध्यान में रखते हुए इस समीक्षा के पूरे होने तक मै. क्विंगडो लियन च्वांग स्टॉक कं. लि. चीन जन. गण. द्वारा किए गए नायलॉन टायर कॉर्ड फैब्रिक के सभी निर्यातों पर अनंतिम आकलन की सिफारिश की थी।

5. यतः, आवेदक द्वारा जाँच शुरुआत अधिसूचना, तारीख 30-10-2007 के जारी होने के 40 दिनों के भीतर समीक्षा हेतु अपेक्षित, माँगी गई सूचना प्रस्तुत की जानी थी। आवेदक ने अनुमत्य समय के भीतर सूचना प्रस्तुत नहीं की और दिनांक 26-12-2007 के अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया कि वे जाँच में भाग नहीं लेंगे।

6. दिनांक 26-12-2007 के पत्र द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आवेदक के असहयोग को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी 30-10-2007 को शुरू की गई जाँच समाप्त करते हैं और अधिसूचना सं. 36/2005-सीमाशुल्क, दिनांक 27-4-2005 के अनुसार मै. क्विंगडो लियन च्वांग स्टॉक कं. लि., चीन जन. गण. द्वारा किए गए नायलॉन टायर कॉर्ड फैब्रिक के सभी निर्यातों के आकलन की सिफारिश करते हैं।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING  
AND ALLIED DUTIES)

TERMINATION NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2008

Subject: Termination of New Shipper Review (under Rule  
22) of Anti-Dumping duty imposed on imports

**of Nylon Tyre Cord Fabric (NTCF) originating  
in/or exported from China PR**

**No. 15/24/2006-DGAD.**— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as AD Rules), thereof;

2. Whereas M/s. Qingdao Lian Chuang Stock Company Ltd., China PR (hereinafter referred to as Applicant) filed an application in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) requesting for a review under AD Rule 22 of the Anti-Dumping duty recommended by the Designated Authority on exports of Nylon Tyre Cord Fabric (NTCF) from China PR in the case of Anti-Dumping investigation where Government had notified the Anti-Dumping duty *vide* Notification No. 36/2005-Customs dated 27-4-2005 falling under Chapter 69 of Customs Tariff Act.

3. Whereas the Authority initiated the investigation under AD Rule 22 for determination of individual dumping margin *vide* Notification No.15/24/2006-DGAD dated 30-10-2007.

4. Whereas the Authority recommended provisional assessment on all exports of Nylon Tyre Cord Fabric made by M/s. Qingdao Lian Chuang Stock Company Ltd., China PR till this review is completed, in accordance with the Rule 22 of the AD Rules and having regard to Notification No. 36/2005 Customs dated 27-4-2005.

5. Whereas the applicant was to submit the requisite information required for review within 40 days of issue of the initiation notification dated 30-10-2007. The applicant failed to submit the information within permitted time and *vide* letter dated 26-12-2007 informed that it will not participate in the investigation.

6. In view of the non-cooperation of the applicant as informed *vide* letter dated 26.12.2007, the Authority terminate the investigation initiated on 30-10-2007 and recommend assessment of the exports of Nylon Tyre Cord Fabric made by M/s. Qingdao Lian Chuang Stock Company Ltd., China PR as per Notification No. 36/2005-Customs dated 27-4-2005.

R. GOPALAN, Designated Authority